

ANZHFR के बारे में अधिक जानकारी पाने के संबंध में या मुख्य जाँच कर्ताओं से संपर्क करने के लिए कृपया निम्नलिखित विवरण का उपयोग करें:

- फ़ोन: **1300 ANZHFR (269 437)**
- ईमेल: **clinical@anzhfr.org**
- वेबसाईट: **www.anzhfr.org**



निम्नलिखित की एक सहयोगी पहल (A collaborative initiative of):

- आस्टिओपोरोसिस ऑस्ट्रेलिया (Osteoporosis Australia)
- आस्टिओपोरोसिस न्यूज़ीलैंड (Osteoporosis New Zealand)
- ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड की वृद्ध लोगों की चिकित्सा
(Australian and New Zealand Society for Geriatric Medicine)
- ऑस्ट्रेलियाई हड्डियों के इलाज की संस्था (Australian Orthopaedic Association)
- न्यूज़ीलैंड की हड्डियों के इलाज की संस्था (New Zealand Orthopaedic Association)
- ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड की हड्डिओ व खनिज संस्था
(Australian and New Zealand Bone and Mineral Society)
- आपातस्थिति चिकित्सा का ऑस्ट्रेलेज़िअन कॉलेज
(Australasian College for Emergency Medicine)
- बहाली चिकित्सा की ऑस्ट्रेलेज़िअन फ़ैकल्टी
(Australasian Faculty of Rehabilitation Medicine)
- शल्य- चिकित्सा का रायलऑस्ट्रेलेज़िअन कॉलेज
(Royal Australasian College of Surgeons)
- ऑस्ट्रेलियाई व न्यूज़ीलैंड की हड्डियों के इलाज की नर्सों की संस्था (Australian and New Zealand Orthopaedic Nurses Association)



ऑस्ट्रेलिया व न्यू ज़ीलैंड में लोगों की कूल्हे की हड्डी टूटने की रजिस्ट्री
(Australian and New Zealand Hip Fracture Registry)
वृद्ध लोगों के लिए परिणामों में सुधार लाना
(Enhancing outcomes for older people)

जानकारी पत्र

लक्ष्य

ANZHFR का लक्ष्य है उन लोगों की स्वास्थ्य देखभाल में उत्तमता, सुरक्षा व प्रभाव में सुधार लाना, जो 50 वर्ष की आयु व उससे अधिक हैं और जिनको कुल्हे की हड्डी टूटने के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया हो। ANZHFR इस कार्य को करने के लिए इसके इलाज व उसके परिणामों की जाँच करके व उसकी रिपोर्ट लिख कर करेगा। इन परिणामों का मानदंड होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यू जीलैंड की कुल्हे की हड्डी टूटने के संचालन की मार्गदर्शिका।

किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाएगी?

- आपका नाम, जन्म की तिथि, संपर्क का विवरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल नम्बर व यहाँ रहने की स्थिति।
- अस्पताल में भर्ती होने से पहले आपकी स्वतंत्रता के स्तर विवरण और आपका चिकित्सय इतिहास।
- अस्पताल में भर्ती होने का विवरण, जो इलाज प्रदान किया गया व अस्पताल से छुट्टी दिए जाने का विवरण।

जानकारी की गोपनीयता

- ANZHFR गोपनीयता संबंधी कानून का पालन करेगा।
- जानकारी को सुरक्षापूर्वक रखा जाएगा, गुप्त रहेगी और केवल मान्य रजिस्ट्री या शोध कार्यकर्ताओं को ही उपलब्ध कराई जाएगी।
- यदि किसी मान्य स्वतंत्र आचारनीति कमेटी द्वारा सहमती होगी, उसके बाद ही यह जानकारी केवल शोध करने के लिए उपयोग की जाएगी।
- इस जानकारी को रिपोर्ट लिखने, व्याख्यान या प्रकाशन के लिए उपयोग किया जा सकता है पर इस प्रकार से कि आपकी पहचान न की जा सके।
- इस जानकारी को आपकी अनुमति के बाद ही उपयोग किया जाएगा, सिवाय जब कानूनी आवश्यकता हो।
- आपकी जानकारी अन्य डाटा संग्रहों के साथ भी जोड़ी जाएगी।

जानकारी पत्र

अस्पताल में भर्ती होने के 120 दिनों के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी

- जिस अस्पताल में आपका इलाज किया गया था उसके स्टाफ़ का कोई सदस्य आपसे फ़ोन द्वारा संपर्क करेगा। यह बात-चीत 5-15 मिनट तक हो सकती है।
- इस बात-चीत के समय वह आपसे आपकी बहाली, आपकी गतिशीलता का स्तर, आपके स्वाबलंबन की मात्रा, आपके चोटग्रस्त कूल्हे का कोई और ऑपरेशन किया गया हो तथा जो दवाईयाँ आप ले रहे हैं उस सब के बारे में पूछ सकते हैं।

खतरा, लाभ व खर्चा

- ANZHFR में भाग लेने से संबंधित कोई खतरे नहीं हैं, हाँलाकि फ़ोन पर स्वास्थ्य संबंधी बात-चीत करने में तकलीफ़ हो सकती है।
- भाग लेने से तुरन्त कोई लाभ नहीं होते हैं, हाँलाकि भाग लेने से उन लोगों के परिणामों में सुधार हो सकता है जिनका भविष्य में कूल्हे की हड्डी टूट जाती है।
- ANZHFR में भाग लेने से आपका कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा, और न ही कोई भुगतान होगा।

ऑस्ट्रेलिया व न्यू जीलैंड में लोगों की कूल्हे की हड्डी टूटने की रजिस्ट्री: वृद्ध लोगों के परिणामों में सुधार लाना

ANZHFR को छोड़ने के लिए:

- फ़ोन: 1300 ANZHFR (269 437)
- ईमेल: optout@anzhfr.org
- वेबसाइट: www.anzhfr.org

यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो आप ANZHFR में अपने बारे में जानकारी शामिल करने कि सहमति दे रहे हैं और अस्पताल छोड़ने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए आपसे संपर्क किया जाएगा।